



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]
No. 91]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 2, 2007/फाल्गुन 11, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 2, 2007/PHALGUNA 11, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2007

सं. 36/2007-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 172(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रेषित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 सा.का.नि. 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (क) परंतुक में, खंड (i), शब्द, अंक और अक्षर “1 अप्रैल, 2007” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “1 अक्टूबर, 2007” प्रतिस्थापित किये जाएंगे;
- (ख) सारणी में, क्रम सं. 77क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“77क	2711 11 00	निम्नलिखित माल, अर्थात् :—			
		(क) द्रवीकृत प्राकृतिक गैस जो निम्नलिखित द्वारा आयात की जाती है;—			
		(i) रत्नागिरी जिले (महाराष्ट्र) में दाभोल स्थित उनकी विद्युत परियोजना में विद्युत के उत्पादन के प्रयोजन के लिए रत्नागिरी गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड; या	कुछ नहीं	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(ii) रत्नागिरी जिले (महाराष्ट्र) में दाभोल स्थित उनकी विद्युत परियोजना में विद्युत के उत्पादन के प्रयोजन के लिए रत्नागिरी गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ किसी करार के अधीन प्रदाय करने के लिए कोई अन्य आयातकर्ता;	कुछ नहीं	—	103
		(ख) किसी अन्य द्रवीकृत प्राकृतिक गैस मेगा विद्युत परियोजना द्वारा विद्युत के उत्पादन के लिए आयात की गई द्रवीकृत प्राकृतिक गैस जो,—	कुछ नहीं	—	—
		(i) एकीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस पुनः गैसीकरण सुविधा के साथ दो हजार मेगावाट या अधिक की किसी प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता के साथ स्थापित है;			
		(ii) अकृत्य हो गई है और जिसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पुनः संरचना और पुनरुज्जीवन प्रस्ताव के अनुसार लोक क्षेत्र उपक्रमों के स्वामित्वाधीन किसी परियोजना कंपनी की प्रकृति में विशेष प्रयोजन यान की मार्फत पश्चात्पूर्व रूप से पुनः संरचना और पुनरुज्जीवन किया गया है; और			
		(iii) किसी विद्युत क्रय करार के अधीन किसी राज्य विद्युत बोर्ड की ऐसी परियोजना में उत्पादित विद्युत का प्रदाय करती है।			
(ग)	उपाबंध में, शर्त सं. 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त और प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :—				
शर्त सं.	शर्त				
(1)	(2)				
103.	(क) आयातकर्ता—				
	(i) आयात की गई द्रवीकृत प्राकृतिक गैस पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् एलएनजी कहा गया है) उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय करने के लिए, यथास्थिति, सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क या उपायुक्त सीमाशुल्क को एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा, यदि वह इस प्रकार आयातित एलएनजी प्राप्त करने के लिए रत्नागिरी गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् आरजीपीपीएल कहा गया है) से आयात की तारीख से तीन मास के भीतर एक रसीद प्रस्तुत करने में असफल रहता है;				
	(ii) आरजीपीपीएल [नीचे दिए गए खंड (ख) (vi) के अनुसार] द्वारा दिए गए वचनबंध की एक प्रति अधिकारिता रखने वाले सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को उस करार की प्रति के साथ जिसके अधीन वह एलएनजी आयात करने और आरजीपीपीएल को प्रदाय करने का आशय रखता है, प्रस्तुत करेगा;				
	(iii) आयात की तारीख से आयात की गई एलएनजी पर संदाय की तारीख तक और इस प्रकार आरजीपीपीएल को संदाय न की गई तारीख तक 13 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित समस्त सीमाशुल्क का संदाय करेगा।				
	(ख) रत्नागिरी गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड,—				
	(i) अपने संयंत्र पर अधिकारिता रखने वाले सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या उपायुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पास, यदि वे उत्पाद शुल्क्य माल के विनिर्माता थे, रजिस्टर कराएगा;				
	(ii) एलएनजी के आयात और प्रदाय के लिए आयातकर्ता के साथ हस्ताक्षरित करार की एक प्रति प्रस्तुत करेगा;				
	(iii) उक्त आयातकर्ता द्वारा आयात की गई और प्रदाय की गई एलएनजी की प्राप्ति और उनके दाभोल स्थित संयंत्र में विद्युत के उत्पादन में उपयोग की गई उसकी खपत का लेखा ररन्ने का वचन देगा;				
	(iv) उनको प्रदाय करने के लिए आयात की गई एलएनजी के लिए प्रवेश पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करेगा;				

(1)

(2)

- (v) आरंभिक स्टॉक आयातित एलएनजी की प्राप्ति, खपत, अंतिम स्टॉक और आशयित प्रयोजन के लिए उपयोग न की गई मात्रा, यदि कोई हो, संदेय मूल्य और सीमाशुल्क को उपदर्शित करते हुए एक तिमाही विवरण प्रस्तुत करेगा;
- (vi) इस प्रकार आयातित और उनकी दायोल स्थित विद्युत परियोजना में विद्युत के उत्पादन में उपयोग न की गई एलएनजी पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क का संदाय करने के लिए अधिकारित रखने वाले सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को वचनबद्ध प्रस्तुत करेगा;
- (vii) आयात की तारीख से संकाय की तारीख तक 13 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित अनुवर्ती तिमाही की 10 तारीख तक इस प्रकार संदेय सीमाशुल्क का संदाय करेगा।

[फा. सं. 334/130/2005-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 20/2007-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2007, सा.का.नि. 117(अ) तारीख 1 मार्च, 2007 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2007

No. 36/2007-CUSTOMS

G.S.R. 172(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 118(E) of the same date, namely :—

In the said notification,—

- (A) in the proviso, in clause (i), for the words, letters and figures “the 1st day of April, 2007”, the words, letters and figures “the 1st day of October, 2007” shall be substituted;
- (B) in the Table, for S. No. 77A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“77A	2711 1100	The following goods, namely :—			
		(A) Liquefied natural gas imported by,—			
		(i) Ratnagiri Gas and Power Private Limited for the purpose of generation of power, at their power project at Dabhol, District Ratnagiri (Maharashtra); or	Nil	—	—
		(ii) any other importer for supply under an agreement to Ratnagiri Gas and Power Private Limited for the purpose of generation of power at their power project at Dabhol, District Ratnagiri (Maharashtra)	Nil	—	103
		(B) Liquefied natural gas imported for the purpose of generating power, by any other Liquefied Natural Gas Mega Power Project, which—	Nil	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> (i) is established with an installed power generation capacity of 2000 MW or more, with integrated Liquefied Natural Gas re-gasification facility; (ii) became defunct and is subsequently re-structured and revived through a Special Purpose Vehicle in the nature of a project company owned by the Public Sector Undertakings as per a restructuring and revival proposal approved by the Central Government; and (iii) supplies the power generated in such project to any State Electricity Board under a Power Purchase Agreement 			
(C)	in the ANNEXURE, after condition No. 102 and the entries relating thereto, the following condition and entries shall be inserted, namely :—				
Condition No.	Conditions				
"103.	(a)	Importer shall—			
		<ul style="list-style-type: none"> (i) furnish an undertaking to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, to pay the duty leviable on liquefied natural gas (hereinafter referred to as LNG) imported in case he fails to produce within 3 months from the date of import a receipt from Ratnagiri Gas and Power Private Limited (hereinafter referred to as RGPPL) for having received the LNG so imported; (ii) furnish a copy of the undertaking given by RGPPL [as per clause b (vi) given below] to the jurisdictional Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise, along with a copy of agreement under which he intends to import and supply LNG to RGPPL ; (iii) pay the full customs duty along with interest at the rate of 13% from the date of import till the date of payment on LNG imported and not so supplied to RGPPL; 			
	(b)	Ratnagiri Gas and Power Private Limited shall—			
		<ul style="list-style-type: none"> (i) register with the Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise having jurisdiction over their plant as if they were manufacturers of excisable goods; (ii) furnish a copy of the agreement signed with the importer for import and supply of LNG; (iii) undertake to maintain account for receipt of LNG, imported and supplied by the said importer, and consumption of the same for use in the generation of power at their Dabhol plant; (iv) furnish a copy of the bill of entry for LNG imported for supply to them; (v) submit a quarterly statement indicating opening stock, receipt of the imported LNG, consumption, closing stock and quantity not used for intended purpose, if any, value and customs duty payable; (vi) furnish an undertaking to the jurisdictional Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise to pay custom duty leviable on LNG so imported and not used for generation of power at their power project at Dabhol; (vii) pay customs duty so payable latest by the 10th day of the following quarter, along with interest at the rate of 13% from the date of import till the date of payment." 			

[F.No. 334/130/2005-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note :—The principal notification No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by vide notification No. 20/2007-Customs, dated the 1st March, 2007 which was published vide number G.S.R. 117(F), dated the 1st March, 2007.